

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28—अप्रैल 3, 2015 (चैत्र 7, 1937)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28—APRIL 3, 2015 (CHAITRA 7, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 24 फरवरी 2015

ए एण्ड एस क्र. 09/2014-15—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारत सरकार से विचार विमर्श के बाद, भारतीय स्टेट बैंक श्री भारत रत्न, निवासी 310-ए, अगर नगर, लुधियाना-141012, को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि, दिनांक 01 मार्च 2015 से 28 फरवरी 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बेंगलूर-560013,

पत्र सं. क.भ.नि.स./अकेआ(क व गोवा) नो. 1(7-20)/3461/2014-15 दिनांक 25.02.2015 से जब कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952(1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं।

क्रम सं	कोड संख्यां	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1	जीबी/बीएलआर/59372	मैसर्स बनसंकरी अरबन कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि.	01.12.2011
2	केएन/एमएनजी/58254	मैसर्स येनेपोया रेजिन्स एन्ड केमिकलरस	01.05.2012
3	पीवय/पीएनवाई/32267	मैसर्स अनघया इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नाकलोजी प्रावेट लिमिटेड	01.04.2012
4	केएन/एसएचजी/48105	मैसर्स बापुजी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाईटी	01.09.2009
5	केएन/एसएचजी/48509	मैसर्स कविरत्न कालीदास क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि.	01.01.2014
6	केएन/एसएचजी/48076	मैसर्स कसहटीरिया मार्था कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि.	01.05.2009
7	केएन/एसएचजी/48326	मैसर्स अनिरुद्ध इंडस्ट्रीज	01.09.2011
8	गोवा/13316	मैसर्स ननकम्भेंसनल पावर डिभाईसेस प्रा. लि.	01.12.2012
9	केएन/एसएचजी/48086	मैसर्स प्राईमारी अग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि.	01.06.2009
10	केएन/एमएनजी/58425	मैसर्स मैंगलोर के.ए.एम.पी. संगी नियामिता	01.09.2013
11	पीवय/केआरपी/52509	मैसर्स आईसोला एशिया पौसिक (हॉग कॉग)	01.05.2011
12	पीवय/केआरपी/52181	मैसर्स द्वारका पीपुल लाईवुड्स अपलिफमेंट सोसाईटी	01.03.2010
13	केएन/एमएनजी/58117	मैसर्स बेंजनापाडुआ वोमेन्स मल्टीसपरपस को ऑर्पोरेटिव सोसाईटी लि. बेंजनापाडुआ	01.04.2011
14	केएन/एमएनजी/58299	मैसर्स विकास विविडोदेस्सास सहकारी संगी(एन) गुरुवायनकरे, बेलथनगडी	01.10.2012
15	केएन/उडुपी/51177	मैसर्स उडुपी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि., उडुपी	01.09.2011
16	केएन/उडुपी/51185	मैसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेटिव सोसाईटी लि.	01.12.2011
17	जीबी/बीएलआर/59548	मैसर्स जनारा समुहा मुटुअल बेनिफिट ट्रस्ट	01.01.2013
18	केएन/एमएनजी/58155	मैसर्स कामत सर्विस सेंटर	01.08.2011
19	केएन/एमएनजी/58467	मैसर्स दिव्य. ज्योसती विविदेसा सहकारा संगी नियामिता	01.01.2014
20	केएन/केआरपी/53049	मैसर्स नरसपुरा मिल्क प्रोड्यूसर	01.11.2012

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायणप्पा
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 24th February 2015

A&S No. 09/2014-15—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Central Government, nominated Shri Bharat Rattan, residing at 310-A, Aggar Nagar, Ludhiana - 141012, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of three years with effect from 1st March 2015 to 28th February 2018 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

Employees' Provident Fund Organisation

Bangalore -560013

With Reference to letter No.EPFO/ACC(K&G)/VOL-COV(7-20)/3461/2014-15 Dated:25.02.2015 WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
1	GB/BLR/59372	M/s Banashankari Urban Co-operative Society Ltd	01.12.2011
2	KN/MNG/58254	M/s Yenepoya Resins & Chemicals	01.05.2012
3	PY/PNY/32267	M/s Anarghya Innovations and Technologies Pvt Ltd	01.04.2012
4	KN/SHG/48105	M/s Bapuji Credit Co-op Society Ltd	01.09.2009
5	KN/SHG/48509	M/s Kaviratna Kalidasa Credit Co-op Society Ltd	01.01.2014
6	KN/SHG/48076	M/s Kshatriya Maratha Co-op Society Ltd	01.05.2009
7	KN/SHG/48326	M/s Anirudh Industries	01.09.2011
8	GOA/13316	M/s Non-Conventional Power Devices Pvt Ltd	01.12.2012
9	KN/SHG/48086	M/s Primary Agricultural Credit Co-operative Society Ltd	01.06.2009
10	KN/MNG/58425	M/s Mangalore K.A.M.P.S Sangha Niyamitha	01.09.2013
11	PY/KRP/52509	M/s Isola Asia Pacific (Hong Kong)	01.05.2011
12	PY/KRP/52181	M/s Dwaraka – People's Livelihoods Upliftment Society	01.03.2010
13	KN/MNG/58117	M/s Benjanapadavu Women's Multipurpose Co-operative Society Ltd, Benjanapadavu	01.04.2011
14	KN/MNG/58299	M/s Vikas Vividhodesha Sahakari Sangha (N) Guruvayanakere, Belthangady	01.10.2012
15	KN/UDP/51177	M/s Udupi Credit Co-op Society Ltd, Udupi	01.09.2011
16	KN/UDP/51185	M/s Sri Krishna Industrial Co-operative Society Ltd	01.12.2011
17	GB/BLR/59548	M/s Janara Samuha Mutual Benefit Trust	01.01.2013
18	KN/MNG/58155	M/s Kamath's Servicentre	01.08.2011
19	KN/MNG/58467	M/s Divyajyothi Vividhidesha Sahakara Sangha Niyamitha	01.01.2014
20	PY/KRP/53049	M/s Narasapura Milk Producer	01.11.2012

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

M. NARAYANAPPA
ADDITIONAL CENTRAL P. F. COMMISSIONER-I (KN&GOA)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in